



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 16 जुलाई 2022

थाना बीबीनगर

हत्या की योजना मे वांछित 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित/टॉप-10 अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 15.07.2022 को थाना बीबीनगर पुलिस द्वारा ग्राम सालाबाद धुमैडा निवासी विक्रान्त पुत्र जगपाल की हत्या की योजना में वांछित 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित/टॉप-10 अपराधी दीपेश उर्फ दीपांशु को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बाहपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से हत्या के प्रयास में प्रयुक्त अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुआ हैं।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त दीपेश उर्फ दीपांशु द्वारा ग्राम सालाबाद धुमैडा निवासी अपने साथी अभिषेक फौजी व अरविन्द उर्फ पपलू आदि के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 11-07-2022 को विक्रान्त पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मु0अ0स0 138/22 धारा 307/504/506/120B भादवि पंजीकृत हैं। घटना में संलिप्त अभियुक्त अभिषेक फौजी व अरविन्द उर्फ पपलू को दिनांक 13-07-2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं तथा अभियुक्त दीपेश उर्फ दीपांशु लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इससे पूर्व भी अभियुक्त दीपेश उर्फ दीपांशु द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रान्त की हत्या प्रयास किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मु0अ0स0 38/22 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बीबीनगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. दीपेश उर्फ दीपांशु पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम बाहपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी-

1 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त दीपेश उर्फ दीपांशु का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 16/19 धारा 302 भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
2. मु0अ0सं0 19/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
3. मु0अ0सं0 38/22 धारा 504/506/307 भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
4. मु0अ0सं0 42/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
5. मु0अ0सं0-138/22 धारा 307/504/506/120बी भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
6. मु0अ0सं0-143/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री जितेन्द्र सिंह थाना प्रभारी बीबीनगर
2. व0उ0नि0 अशोक कुमार, उ0नि0 श्री ऋषिपाल सिंह, उ0नि0 अशोक कुमार
2. का0 सुखदेव, का0 अरविन्द सोम, का0 अंकुर मलिक



मीडिया सैल बुलन्दशहर